

## बिहार के विशेष करंट अफेयर्स (जनवरी 2021)

### इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बिहार ने 13वां स्थान हासिल किया

- हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज़, दक्ष (DAKSH), विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल के सहयोग से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2020 (India Justice Report-2020) जारी की है।
- इसमें हर राज्य को पुलिसिंग, जेल, न्यायिक, आधारभूत संरचना का आकलन, कानूनी सहायता, मानव संसाधन सहित कई मापदंडों पर रैंकिंग दी जाती है।
- रिपोर्ट के अनुसार, देश में लोगों को न्याय देने में राज्यों की सूची में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। इसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल है।
- छोटे राज्यों में, गोवा ने शीर्ष स्थान और अरुणाचल प्रदेश को नीचे रखा, इस रिपोर्ट में बिहार को 13वां स्थान दिया गया है।

### मुख्तार आलम को मैथिली सेवी पुरस्कार से नवाजा जाएगा

- मैथिली भाषा एवं साहित्यिक उत्थान और जनजागृति के लिए किए गए अनेक महत्वपूर्ण काम को देखते हुए मैथिली भाषा अभियानी व पेशे से शिक्षक **मुख्तार आलम** को मैथिली सेवी सम्मान से नवाजा जाएगा।
- मुख्तारआलम साहित्यिक, सामाजिक संगठन मैथिली शब्द लोक के संस्थापक और निदेशक हैं।
- इससे पहले, मुख्तारआलम को अखिल भारतीय मिथिला संघ दिल्ली, युवाविचार मंच जैसे संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया है।

### "साइकिल गर्ल" ज्योति 'नशा मुक्ति' अभियान की ब्रांड एंबेसडर बनी



**Gradeup Bihar State Exams Green Card Subscription**

(BPSC, Bihar SI, Bihar SSC etc.)

Get unlimited access to all 40+ mock tests

- ज्योति कुमारी (लॉकडाउन साइकिल गर्ल) अपने पिता के साथ साइकिल से हरियाणा के गुरुग्राम से दरभंगा पहुंची थी जिसमें उन्होंने सात दिनों में 1200 किमी की दूरी तय की थी।
- इस बहादुरी को सम्मानित करने के लिए, बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने नशामुक्ति अभियान के लिए साइकिल गर्ल ज्योति को ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है।

### रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया

- पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों की श्रेणी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, अपने 32 साल के राजनीतिक करियर में दो बार लोकसभा सांसद और दो बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। उन्होंने 11 बार चुनाव लड़े, 9 बार जीते।
- मोदी सरकार में उपभोक्ता मामलों के मंत्री रहे रामविलास पासवान बिहार के खगड़िया में पैदा हुए थे।

### अररिया में 150 एकड़ में बनाया जाएगा जैविक उद्यान

- रानीगंज और अररिया में पेड़ उद्यान में लगभग 150 एकड़ पर एक जैविक उद्यान केंद्र बनाया जाएगा।

### पटना विश्वविद्यालय से स्नातक डॉ. राजीव रंजन तमिलनाडु के मुख्य सचिव बने

- मुख्य सचिव बनाए जाने के पहले वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में थे।
- डॉ. राजीव रंजन भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच से हैं। वह बिहार के समस्तीपुर जिले के गंगापुर गाँव के निवासी हैं।

### श्रीडी पेंटिंग के साथ बिहार स्मार्ट सिटी को मॉडर्न लुक दिया जाएगा



**Gradeup Bihar State Exams Green Card Subscription**

(BPSC, Bihar SI, Bihar SSC etc.)

Get unlimited access to all 40+ mock tests

- इसे पटना स्मार्ट सिटी से लॉन्च किया जाएगा। पटना स्मार्ट सिटी ने सभी सरकारी भवनों पर 3 डी पेंटिंग करने की योजना बनाई है ताकि यह आगंतुकों के बीच आकर्षण का केंद्र बने और पटना की एक स्मार्ट छवि सामने आए।

### नीति आयोग के नवाचार सूचकांक (इनोवेशन इंडेक्स) में बिहार सबसे खराब राज्यों में शामिल

- नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे नवाचार सूचकांक में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल को शीर्ष पांच राज्यों में स्थान दिया गया।
- झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर रहे।
- इस सूचकांक का उद्देश्य नवाचार के क्षेत्र में राज्यों की ताकत और कमजोरियों का पता लगाना और उन्हें इस दिशा में मजबूत करने के लिए प्रेरित करना है।

### बिहार से पद्म पुरस्कार

- श्री रामचंद्र मांझी को बिहार की कला संस्कृति में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है।
- सुश्री दुलारी देवी को कला के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है।
- सुश्री मृदुला सिन्हा (मरणोपरांत), को कला और साहित्य के क्षेत्र में पद्म श्री के लिए नामित किया गया।
- दिलीप कुमार सिंह को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है।
- श्री राम विलास पासवान (मरणोपरांत), सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण के लिए नामित किए गए।



**Gradeup Bihar State Exams Green Card Subscription**

(BPSC, Bihar SI, Bihar SSC etc.)

Get unlimited access to all 40+ mock tests